

वी. यू. अंतर्गत पंच दिवसीय दीपावली पर्व के तहत गोवर्धन पूजा दिवस पर गौ- माता पूजन- अर्चन का आयोजन

जबलपुर- आज दिनांक 15 नवंबर 2020 को दुग्ध प्रक्षेत्र , नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविधलय जबलपुर के ऊर्जावान व यशस्वी मानीय डॉ.सीता प्रसाद तिवारी, कुलपति के कुशल मार्गदर्शन एवं कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार बाजपेई व अधिष्ठाता संकाय डॉ. रमेश प्रताप सिंह बघेल के निर्देशानुसार विगत दिवस में दुग्ध प्रक्षेत्र पर दीपावली के पवन पर्व पर विभिन्न श्रेणी के गौ- पशुओं, गौ आवास ग्रहों व आसपास स्वच्छता,साफ-सफाई एवं पुताई कार्यो को तत्परता से सभी के सहयोग से कोविड-१९ वैश्विक महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्पादित कराए गए।



कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि यानि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता पूजन शुभ मुहूर्त दोपहर 03 .24 बजे से शाम 05 .36 बजे के मध्य मानीय कुलपति जी एवं वि.वि. के अधिष्ठाता संकाय द्वारा कराया गया। इस अवसर पर गौमाता का पूजन- अर्चन करते, उन्हें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से निर्मित विभिन्न मिस्थान के रूप में खेलाया गया। साथ ही वि.वि. के पंचगव्य द्वारा निर्मित गोबर व मिट्टी से तैयार दीयों से गौमाता की आरती एवं समस्त गोशालाओं एवं वि.वि. परिसर के विभिन्न स्थानों पर गोबर से निर्मित दीपकों से प्रकाशवान कराया गया।



इस अवसर पर माननीय कुलपति जी ने अपने उद्बोधन के दौरान गोशालाओं गोवंश संरक्षण व संवर्धन पर उद्बोधित करते हुए उत्तम गुणवत्ता के हरे चारे , दुग्ध उत्पादन एवं पंचगव्य उत्पादों इ उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक दिशा - निर्देश दिए गए।

शुभ दीपावली के पर्व पर वि.वि. परिवार के डॉ. सुनील नायक डॉ.ए.के. गौर, डॉ. अकलंक जैन , डॉ. विश्वजीत राय एवं समस्त कर्मचारियों, विशेषकर दुग्ध प्रक्षेत्र के स्टाफ की गरिमामय उपस्थिति रही।

